



इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014  
(लाईसेन्स आधारित प्रणाली)

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन

मार्च, 2014

*hndll*

प्रेषक,

सदा कान्त,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय:- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए पुनरीक्षित इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासनादेश संख्या: 2711/आठ-1-05-34विविध/03, दिनांक 21.05.2005 द्वारा भूमि अर्जन एवं विकास (इण्टीग्रेटेड टाउनशिप) की नीति जारी की गयी थी। उक्त नीति के अन्तर्गत लाइसेंस आधारित प्रणाली के निर्धारण एवं उसमें स्पष्टीकरण/संशोधन के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये।


2- इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य से इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति संबंधी पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए संलग्न पुनरीक्षित इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) निर्धारित की जाती है।

3- यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

4- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेंस आधारित प्रणाली) के क्रियान्वयन हेतु नीति में उल्लिखित प्रारूप यथा-कन्सॉर्सियम से संबंधित एम०ओ०यू०, लाइसेंस आवेदन हेतु प्रपत्र, लाइसेंस निगमन हेतु प्रपत्र, विकास अनुबन्ध (डी०ए०) से संबंधित प्रपत्र आदि तथा नगरीय विकास शुल्क की दरों संबंधी नियम पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


  
(सदा कान्त)  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
10. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(पी०एन० यादव)  
अनु सचिव

## 1. उद्देश्य एवं आवश्यकता

1.1 शहरों के नियोजित एवं सुस्थिर विकास के लिए आवास एवं उससे सम्बद्ध अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता अपरिहार्य है। सरकार का यह सामाजिक दायित्व है कि वह ऐसी परिस्थितियों का सृजन करे जिससे समाज के प्रत्येक परिवार को उसकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास की सुविधा मुहैया हो सके। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निम्न एवं माध्यम आय वर्गों हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग सबसे अधिक है, जिसे सरकार के सीमित संसाधनों से पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है, अतः राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीतियों में निर्धारित रणनीति के अनुरूप इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति का मुख्य उद्देश्य निजी पूंजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना है, ताकि जन-सामान्य को उचित मूल्य पर आवास मुहैया हो सके और निवेशकर्ताओं को विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके।

1.2 तत्कम में शासनादेश संख्या: 2711/आठ-1-05-34विविध/03, दिनांक 21.05.2005 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) की नीति जारी की गयी थी। उक्त नीति के अन्तर्गत लाईसेन्स आधारित प्रणाली के निर्धारण एवं उसमें स्पष्टीकरण/संशोधन के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर निम्न शासनादेश जारी किए गए हैं:-

- (I) शासनादेश संख्या: 5873/आठ-1-05-34विविध/03, दिनांक 29.12.2005
- (II) शासनादेश संख्या: 5873/आठ-1-05-34विविध/03, दिनांक 12.01.2006
- (III) शासनादेश संख्या: 6168/आठ-1-06-53विविध/06, दिनांक 22.08.2006
- (IV) शासनादेश संख्या: 2236/आठ-1-06-45विविध/06, दिनांक 28.04.2006
- (V) शासनादेश संख्या: 6710/आठ-1-06-77विविध/06, दिनांक 10.10.2006
- (VI) शासनादेश संख्या: 1859/आठ-1-07-33विविध/06, दिनांक 27.08.2008
- (VII) शासनादेश संख्या: 5397(2)/8-3-08-33विविध/03, दिनांक 02.12.2008

लाईसेन्स प्रणाली में संशोधन के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के कतिपय प्राविधान स्पष्ट नहीं हैं तथा शासनादेश दिनांक 27.8.2008 जारी होने के उपरान्त कई बार भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है कि भिन्न-भिन्न तिथियों में पंजीकृत अथवा लाईसेन्सधारक विकासकर्ताओं के प्रकरणों में कौन से शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 27.8.2008 के अधीन विकासकर्ताओं के चयन हेतु "प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया" लागू कर दिए जाने के कारण इस नीति का क्रियान्वयन अवरुद्ध हो गया है। अतः इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाईयों के निराकरण हेतु उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत लाईसेन्स प्रणाली से सम्बन्धित प्राविधानों को अतिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित नीति निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

## 2. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का तात्पर्य

2.1 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का तात्पर्य एक 'सेल्फ-कन्टेन्ड' रूप में नियोजित एवं विकसित टाउनशिप से है, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्राविधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।

*hull*



2.2 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास के लिए मुख्य मार्ग से सुगम पहुँच की सुविधा, नियमित जल आपूर्ति एवं ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। अतः इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का विकास सामान्यतः महायोजनाओं के शहरीकरण क्षेत्र तथा प्रदेश के तीव्र गति से विकसित हो रहे 'अर्बन मास ट्रान्जिट कॉरीडोर' के साथ एवं ऐसे क्षेत्रों जहाँ विकास के नए 'ग्रोथ सेन्टर्स' प्रकट हो रहे हैं और रीजनल स्तर की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं, में प्रोत्साहित किया जाएगा।

### 3. विकासकर्ताओं के लिए अर्हताएं

- 3.1 इस नीति के अधीन इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास के लिए निजी विकासकर्ता पात्र होंगे। 'निजी विकासकर्ता' का तात्पर्य किसी व्यक्ति, कम्पनी या संघ (एसोसिएशन), व्यक्तियों के निकाय चाहे निगमित हो या न हो, से है जिसके पास विकास के लिए भूमि है या जुटाव किया हो या कय या अन्यथा द्वारा भूमि रखने या जुटाव करने के लिए सहमत हो और जो इस नीति के अधीन लाइसेंस के लिए अर्ह हों।
- 3.2 निजी विकासकर्ताओं द्वारा कन्सॉर्शियम बनाया जा सकेगा, जिसके सदस्यों की अधिकतम सीमा पर प्रतिबन्ध नहीं होगा, परन्तु कन्सॉर्शियम का 'लीड मेम्बर' केवल कम्पनी होगी। कन्सॉर्शियम के समस्त सहभागी सदस्यों के मध्य निर्धारित प्रपत्र (जो अलग से जारी किया जाएगा) पर एम.ओ.यू. का निष्पादन अनिवार्य होगा, जो सम्बन्धित जनपद के सय-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। कन्सॉर्शियम एम.ओ.यू. में कन्सॉर्शियम के कुल औसत वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ के सापेक्ष विभिन्न सदस्यों की व्यक्तिगत टर्नओवर एवं नेटवर्थ का अलग-अलग उल्लेख किया जायेगा। कन्सॉर्शियम एम.ओ.यू. में उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त की अनुमति के बिना परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 3.3 कन्सॉर्शियम में विभिन्न सदस्यों की शेयरहोल्डिंग किसी भी अनुपात में हो सकती है, जिसका उनके औसत वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ से कोई सम्बन्ध (लिन्केज) नहीं होगा, किन्तु कन्सॉर्शियम के कुल वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ सम्बन्धी अर्हताओं में न्यूनतम 26 प्रतिशत अर्हता अकेले लीड मेम्बर द्वारा पूर्ण करना अनिवार्य है तथा लीड मेम्बर की शेयरहोल्डिंग न्यूनतम 26 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा।

उदाहरण:

यदि किसी कन्सॉर्शियम द्वारा 300 एकड़ क्षेत्रफल के लाइसेन्स हेतु आवेदन किया जाता है, तो वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ सम्बन्धी अर्हता निम्नवत् होगी:-

• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 150 करोड़
• नेटवर्थ (औसत वार्षिक टर्नओवर का 20 प्रतिशत)	रु. 30 करोड़
• लीड मेम्बर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (रु. 150 करोड़ का 26 प्रतिशत)	रु. 39 करोड़
• लीड मेम्बर की न्यूनतम नेटवर्थ (रु. 30 करोड़ का 26 प्रतिशत)	रु. 7.80 करोड़
• कन्सॉर्शियम में लीड मेम्बर की न्यूनतम शेयरहोल्डिंग	26 प्रतिशत

शेष औसत वार्षिक टर्नओवर एवं नेटवर्थ की पूर्ति किसी भी सदस्य (लीड मेम्बर सहित) द्वारा की जा सकती है, किन्तु उसका स्पष्ट उल्लेख कन्सॉर्शियम एम.ओ.यू. में होना चाहिए।

*well*

- 3.4 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम का टर्नओवर किसी भी सेक्टर/व्यवसाय का हो सकता है, परन्तु गत वर्ष में नेटवर्थ पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम 20 प्रतिशत होनी चाहिए। टर्नओवर एवं नेटवर्थ की पुष्टि हेतु गत 3 वर्षों की आडिटिड बैलेन्स शीट एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3.5 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम के गत तीन वर्षों के औसत वार्षिक टर्नओवर के आधार पर इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए प्रत्येक रु. 50 लाख टर्नओवर के सापेक्ष एक एकड़ लाइसेन्स क्षेत्रफल अनुमन्थ होगा, किन्तु नेटवर्थ औसत वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा लाइसेन्स एरिया 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम 500 एकड़ हो सकता है।

उदाहरण-1	
• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 22.40 करोड़
• नेटवर्थ	रु. 10.00 करोड़
• अनुमन्थ लाइसेन्स एरिया	44 एकड़
उदाहरण-2	
• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 22.40 करोड़
• नेटवर्थ	रु. 2.00 करोड़
• अनुमन्थ लाइसेन्स एरिया	शून्य
उदाहरण-3	
• औसत वार्षिक टर्नओवर	रु. 22.40 करोड़
• नेटवर्थ	रु. 4.00 करोड़
• अनुमन्थ लाइसेन्स एरिया	40 एकड़

- 3.6 कन्सॉर्शियम को लाइसेंस जारी होने के उपरान्त 'लीड मेम्बर' के अतिरिक्त अन्य सदस्यों में उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा उसी दशा में परिवर्तन अनुमन्थ होगा, जिससे मूल कन्सॉर्शियम की न्यूनतम अपेक्षित वित्तीय क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव न पड़े। लीड मेम्बर में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जा सकेगी कि योजनान्तर्गत प्रथम डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के अधीन समस्त विकास कार्य, ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास/निर्माण कार्य और योजनान्तर्गत स्थित ग्रामीण आवासियों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया हो। कन्सॉर्शियम के सदस्यों में परिवर्तन की स्थिति में कन्सॉर्शियम का संशोधित एम.ओ.यू. प्रस्तुत करना होगा, जिसके समन्वय में प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा अपनी सहमति/असहमति एक माह के अन्दर आवेदक को सूचित की जाएगी।
- 3.7 कोई भी कम्पनी कितने भी कन्सॉर्शियम का सदस्य हो सकती है, परन्तु एक से अधिक कन्सॉर्शियम में सदस्य होने की स्थिति में कम्पनी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सभी कन्सॉर्शियम में सम्मिलित कम्पनी की वित्तीय क्षमता का क्युमुलेटिव योग उसकी मूल वित्तीय क्षमता से अधिक नहीं है तथा उक्त शपथ-पत्र कभी भी असत्य पाए जाने पर कन्सॉर्शियम का लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा। शपथ-पत्र में

*well*



कम्पनी द्वारा प्रत्येक कन्सॉर्शियम में कम्पनी के आगणित टर्नओवर एवं नेटवर्थ का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4. लाईसेन्स हेतु आवेदन एवं निर्गमन की प्रक्रिया

- 4.1 लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल की 25 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व (रजिस्टर्ड सेल डीड) विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम के किसी भी सदस्य के पक्ष होना चाहिए। यदि कन्सॉर्शियम में कोई व्यक्ति सदस्य हो, तो उसके स्वामित्व की भूमि की गणना उक्त 25 प्रतिशत में की जायेगी, परन्तु लैंड पूलिंग एग्रीमेन्ट अथवा डेवल्पर एग्रीमेन्ट अथवा एग्रीमेन्ट-टू-सेल की भूमि इसमें शामिल नहीं होगी। विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र (जिसका प्रारूप अलग से जारी किया जाएगा) पर उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ रु. 1000/- मात्र प्रति एकड़ परन्तु न्यूनतम रूपये 1.0 लाख 'नॉन-रिफण्डेबल प्रोसेसिंग फीस' जमा करनी होगी।
- 4.2 लाईसेन्स हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण कर अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त को प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति गठित की जायेगी:-

(I)	सचिव, विकास प्राधिकरण/अपर आवास आयुक्त	अध्यक्ष
(II)	मुख्य अभियन्ता/वरिष्ठतम अभियन्ता, विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(III)	वित्त नियन्त्रक/वरिष्ठतम वित्त अधिकारी, विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(IV)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
(V)	सम्यन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रतिनिधि	सदस्य
(VI)	मुख्य नगर नियोजक या वरिष्ठतम नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद	सदस्य-संयोजक

यदि लाईसेन्स हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र समिति द्वारा अपूर्ण पाया जाता है, तो वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विकासकर्ता को 30 दिन का समय दिया जाएगा। उक्त समय सीमान्तर्गत सूचनाएं प्राप्त न होने की दशा में समिति की संस्तुति पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है।

- 4.3 लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र अर्ह पाये जाने पर विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम को लाईसेन्स फीस जमा करने के लिए सूचित किया जायेगा, जो 30 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। लाईसेन्स फीस की दरें नगर के आकार के आधार पर निम्नवत् होंगी:-

• 10 लाख एवं अधिक आवादी	रु. 1.50 लाख प्रति एकड़
• 5 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आवादी	रु. 1.00 लाख प्रति एकड़
• 5 लाख से कम आवादी	रु. 0.50 लाख प्रति एकड़

लाईसेन्स फीस की धनराशि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को लागू दरों के अनुसार देय होगी। लाईसेन्स फीस की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा भारत सरकार के मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाएगा।

- 4.4 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम को लाईसेन्स निर्गमन के पूर्व लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत उसके स्वामित्व की एवं टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि प्रथम

*Handwritten signature*

विकास अनुसूचक निष्पादित होने तक विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी।

4.5 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम को लाईसेन्स निर्धारित प्रपत्र पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत किया जाएगा, जिसकी सूचना प्राधिकरण/परिषद बोर्ड, शासन तथा आवास यच्चु को प्रेषित की जाएगी। प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा लाईसेन्स निर्गमन की कार्यवाही विकासकर्ता द्वारा आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि से 90 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी।

4.6 एक बार निर्गत लाईसेन्स सम्पूर्ण परियोजना अर्थात् तक वैध होगा। परियोजना अर्थात् का तात्पर्य लाईसेन्स निर्गमन की तिथि से योजना के समस्त विकास कार्य पूर्ण होने पर 'कम्प्लीशन सर्टिफिकेट' जारी होने की तिथि से है।

4.7 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा प्रत्येक टाउनशिप के लिए पृथक लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा। विकासकर्ता एक या अधिक विकास क्षेत्र में एक या अधिक लाईसेन्स हेतु आवेदन कर सकता है और एक या अधिक कन्सॉर्शियम का सदस्य भी बन सकता है, परन्तु प्रत्येक लाईसेन्स उसकी वित्तीय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि प्रस्ताव-3.4 एवं 3.5 में प्राविधानित है।

4.8 लाईसेन्स हेतु अनुमोदित कुल क्षेत्रफल में उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा युक्तिसंगत कारणों से कमी की जा सकती है, परन्तु कम हुए क्षेत्रफल के सापेक्ष लाईसेन्स फीस वापस नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त भूमि क्रय/खुटाव में व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत स्थल की भौतिक सीमाओं में लाईसेन्स एरिया के कुल क्षेत्रफल में अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक परिवर्तन उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के अनुमोदन से इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि विकासकर्ता के स्वामित्व की 25 प्रतिशत भूमि एवं उसके अन्तर्गत प्राधिकरण/आवास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि लाईसेन्स क्षेत्र में ही रहनी चाहिए।

4.9 विकास प्राधिकरण क्षेत्र के बाहर लाईसेन्स निर्गमन एवं टाउनशिप के विकास/निर्माण कार्यों के विनियमन हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा इस प्रयोजनार्थ लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जायेगा।

4.10 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा टाउनशिप के क्षेत्र में विस्तार के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जो प्रस्ताव संख्या-4.2 के अनुसार गठित समिति की संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त द्वारा निम्न शर्तों के अधीन केवल एक बार अनुमन्य होगा:-

(I) विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा मूल लाईसेन्स क्षेत्रफल की न्यूनतम 60 प्रतिशत भूमि क्रय/असेम्बल कर ली गई हो तथा कम से कम एक विकास अनुसूचक निष्पादित कर लिया गया हो,

(II) विस्तार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व अनुमोदित टाउनशिप की निरन्तरता में होना चाहिए। यदि मूल टाउनशिप और विस्तारित क्षेत्र के मध्य कोई भौतिक बाधा हो, तो मूल टाउनशिप और विस्तारित क्षेत्र की परस्पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का दायित्व विकासकर्ता का होगा,

(III) विस्तारित क्षेत्रफल के सापेक्ष मानक के अनुसार विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम की वित्तीय अर्हता पूर्ण होनी चाहिए,

*l*



- (IV) विस्तारित क्षेत्र हेतु विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा निर्धारित दरों पर प्रोसेसिंग फीस एवं लाईसेन्स फीस देय होगी,
- (V) टाउनशिप के लिए मूल अनुमोदित लाईसेन्स क्षेत्रफल के अधिकतम 100 प्रतिशत तक विस्तार अनुमन्य होगा, परन्तु विस्तारित क्षेत्रफल सहित टाउनशिप का कुल क्षेत्रफल 500 एकड़ से अधिक नहीं होगा।
- (VI) पूर्व नीति के अधीन अनुमोदित टाउनशिप को इस नीति की शर्तों के अधीन विस्तार अनुमन्य होगा।

#### 5. लैण्ड असेम्बली की प्रक्रिया

- 5.1 प्रस्तावित टाउनशिप के लिए विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा भूमि स्वयं कय/असेम्बल की जाएगी। टाउनशिप के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण अपरिहार्य होने की दशा में प्रचलित भू-अर्जन अधिनियम तथा उसके कम में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
- 5.2 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा स्वयं कय की जाने वाली भूमि पर प्रचलित नियमों के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 5.3 गांव सभाओं तथा स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण के सम्वन्ध में राजस्व अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 1678/एफ-1/2004-1-1(10)/2002-15-रा.1, दिनांक 30 जून, 2004 तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29.10.2004 के अधीन सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेशों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- 5.4 टाउनशिप की सीमान्तर्गत यदि सीलिंग की सरप्लस भूमि आती है, तो उसे विकासकर्ता को निर्धारित शुल्क लेकर आवंटित किया जाएगा।
- 5.5 टाउनशिप/योजना स्थल के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्वन्ध में प्रचलित नियमों तथा राज्य सरकार की प्रभावी नीति के अनुसार कार्यवाही की जानी होगी।
- 5.6 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा लाईसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संकमण हेतु उ. प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-154(2) के अधीन प्रचलित नियमों के अनुसार छूट देय होगी, जिससे सम्वन्धित कार्यवाही अधिकतम 60 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी।
- 5.7 विकासकर्ता द्वारा यदि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-154(2) के अधीन राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना 12.50 एकड़ से अधिक भूमि कय कर ली गई हो, तो उसके विनियमितीकरण हेतु अधिनियम की धारा-154(3) में निहित व्यवस्थानुसार भूमि की वर्तमान लागत (जिलाधिकारी का प्रचलित सर्किल रेट) के 25 प्रतिशत के बराबर की धनराशि का राजस्व विभाग द्वारा विहित रीति के अनुसार जिलाधिकारी को भुगतान कर उसकी रसीद की प्रमाणित प्रति डी.पी.आर. के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में तत्सीमा तक धारा-154(2) के अधीन छूट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

*hull*

5.8 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन अर्जित/असेम्बल की जाने वाली भूमि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लिए विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5.9 लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त, लाईसेन्स से आच्छादित भूमि को विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अपनी योजनाओं के लिए भूमि अर्जन के प्रस्ताव में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार विकास प्राधिकरण/आवास परिषद की योजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचित भूमि के अन्तर्गत लाईसेन्स के लिए प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता को लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त लाईसेन्स क्षेत्र में विकासकर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी आवेदक को विकास/निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और जिस विकासकर्ता को लाईसेन्स पहले जारी हो चुका है, के लाईसेन्स एरिया में किसी अन्य विकासकर्ता की 'ओवरलैपिंग' अनुमत्य नहीं होगी।

#### 6. विकासकर्ताओं को इन्सेन्टिव

6.1 लाईसेन्स एरिया के अन्तर्गत विकास/निर्माण सम्बन्धी पूर्ण अधिकार केवल विकासकर्ता/कन्सॉशियम को होंगे अर्थात् लाईसेन्स हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में लाईसेन्सधारक विकासकर्ता/कन्सॉशियम के अतिरिक्त किसी अन्य मू-स्वामी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र में अनाधिकृत विकास/निर्माण को भी नियंत्रित किया जायेगा।

6.2 टाउनशिप हेतु लैण्ड असेम्बली के लिए विकासकर्ता/कन्सॉशियम द्वारा मू-स्वामियों/किसानों से लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट/डेवल्पर एग्रीमेन्ट किया जा सकेगा।

6.3 टाउनशिप के नियोजन हेतु फ्लैक्सिबल लैण्डयूज नार्न्स तथा डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. के उच्च मानक निर्धारित किये गये हैं।

6.4 महायोजना अन्तर्गत मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में नगर के आकार के आधार पर निम्ननुसार छूट अनुमत्य होगी:-

(क) 5 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आवादी के नगर	25 प्रतिशत छूट
(ख) 5 लाख से कम आवादी के नगर	50 प्रतिशत छूट

6.5 टाउनशिप के क्षेत्रफल में विस्तार अनुमत्य है, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के स्तर से देय होगी।

6.6 विकासकर्ता को एक ही विकास क्षेत्र में एक से अधिक लाईसेन्स प्राप्त करने तथा एक से अधिक कन्सॉशियम में सदस्य बनने की सुविधा अनुमत्य होगी।

6.7 लाईसेन्स निर्गमन एवं ले-आउट प्लान अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित है तथा उक्त कार्यवाही के लिए उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया है।

#### 7. मू-स्वामियों/किसानों के हितों का संरक्षण

7.1 मू-स्वामियों/किसानों द्वारा अपनी भूमि विकासकर्ता/कन्सॉशियम को विक्रय करने की वाध्यता नहीं है; बल्कि लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट/डेवल्पर एग्रीमेन्ट किया जा सकता है।

7.2 टाउनशिप के अन्तर स्थित ग्रामीण आवातियों में विकासकर्ता द्वारा लिंक रोड, पेरीफेरल एवं आन्तरिक सड़कें, मार्ग-प्रकाश व्यवस्था, ड्रेनेज, सीवेज निस्तारण, जलापूर्ति तथा तालाबों/पोखरों/जलाशयों का जीर्णोद्धार/संरक्षण, आदि से सम्बन्धित कार्य स्वयं निःशुल्क

*handwritten signature*



कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पाठशाला, डिस्पेन्सरी, सामुदायिक केन्द्र के लिए मानकों के अनुसार भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।

- 7.3 प्रस्तावित टाउनशिप के बाहर स्थित ऐसी ग्रामीण आवाशियां जिनकी भूमि को विकासकर्ता द्वारा अपनी योजना के उपयोग में लाया जा रहा है, के विकास हेतु विकासकर्ता द्वारा सुसंगत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी, जिससे प्राधिकरण आवास परिषद द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे।
- 7.4 टाउनशिप के अन्तर्गत यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो प्रभावित भू-स्वामियों को प्रचलित भूमि अर्जन अधिनियम तथा उसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन समुचित प्रतिकर और नियमानुसार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की सुविधाएं अनुमन्य होंगी।
8. भू-उपयोग नियोजन, तथा डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. के मानक
- 8.1 टाउनशिप हेतु प्रस्तावित स्थल का महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक होने पर आवासीय या अन्य किसी भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु सक्षम स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-
- (I) प्रस्तावित टाउनशिप के अन्दर स्थित महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले स्थल/ग्रीन बेल्ट या नगर स्तर की अन्य जनसुविधा/उपयोग यथा-बस टर्मिनल, एस.टी.पी., फायर स्टेशन, इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन, वाटर वर्क्स तथा समरूप सुविधा हेतु आरक्षित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन लाईसेन्स एरिया के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक अनुमन्य होगा।
  - (II) लाईसेन्स एरिया के अन्तर्गत नगर स्तरीय सुविधाओं/उपयोगों का प्रतिस्थापन (स्वैपिंग) इस प्रतिबन्ध के अधीन सक्षम स्तर से अनुमन्य होगा कि कम्पैटिविलिटी, कनेक्टिविटी तथा तकनीकी दृष्टि से स्वैपिंग के प्रस्ताव युक्तिसंगत होने चाहिए।
  - (III) नगर स्तरीय सुविधाओं/उपयोगों के अतिरिक्त अन्य भू-उपयोगों से इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के प्रयोजनार्थ आवासीय में नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 8.2 टाउनशिप के अन्दर स्थित महायोजना मार्गों का निर्माण तथा पार्क एवं खुले क्षेत्रों/ग्रीनबेल्ट का विकास विकासकर्ता द्वारा अपने व्यय पर स्वयं कराया जायेगा। उपरोक्त उपयोगों के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा कय की गई भूमि के सापेक्ष नियमानुसार कम्पेन्सेटरी एफ.ए.आर. देय होगा।
- 8.3 भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य होने की दशा में 10 लाख एवं अधिक आवादी के नगरों में तत्समय प्रभावी नियमों/शासनादेशों के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा, जबकि 5 लाख से अधिक परन्तु 10 लाख से कम आवादी के नगरों हेतु परिवर्तन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट और 5 लाख से कम आवादी के नगरों हेतु 50 प्रतिशत की छूट होगी।
- 8.4 टाउनशिप हेतु चयनित ऐसे स्थल जहाँ लाईसेन्स निर्गमन की तिथि को महायोजना लागू नहीं है, उनके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी और भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भी देय नहीं होगा। लाईसेन्स जारी होने के बाद यदि प्रथम बार महायोजना लागू होती है, तो महायोजना में उन क्षेत्रों को 'आवासीय' दर्शित किया जाएगा एवं ऐसे प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।
- 8.5 टाउनशिप के अन्तर्गत आवासीय, मिश्रित, व्यवसायिक, औद्योगिक (प्रदूषणमुक्त), संस्थागत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, उपयोगिताएं तथा मनोरंजन, पार्क, खुले क्षेत्र, क्रीड़ा-स्थल एवं जलाशय तथा यातायात एवं परिवहन के लिए मानकों के अनुसार भूमि

*h*



आरक्षित की जाएगी। टाउनशिप के नियोजन हेतु महायोजना मार्गों एवं महायोजना स्तरीय ग्रीन भू-उपयोग को छोड़कर अवशेष क्षेत्रफल के लिए भू-उपयोग के मानक निम्न तालिकानुसार होंगे:-

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1.	आवासीय	अधिकतम 50
2.	मिश्रित	अधिकतम 20
3.	व्यवसायिक	अधिकतम 10
4.	औद्योगिक (प्रदूषणरहित),- संस्थागत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, उपयोगिताएं तथा मनोरंजन	न्यूनतम 10
5.	पार्क, खुले क्षेत्र, कीड़ा-स्थल एवं जलाशय	न्यूनतम 15
6.	यातायात, परिवहन एवं पार्किंग स्थल,	न्यूनतम 15

टिप्पणी:- प्रस्तावित टाउनशिप के अन्तर्गत यदि महायोजना/जोनल प्लान स्तर की सड़कें तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन बेल्ट शामिल हो, तो ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कुल लाईसेन्स एरिया से घटाने के उपरान्त नेट एरिया पर उपरोक्त तालिका में निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न भू-उपयोगों हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी, परन्तु लाईसेन्स फीस सम्पूर्ण लाईसेन्स एरिया पर देय होगी।

8.5 टाउनशिप के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित भू-उपयोगों के विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु डेन्सिटी, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक निम्नानुसार होंगे:-

डेन्सिटी		
(क) प्लॉट डेवलपमेन्ट	150 आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर	
(ख) गुप हाउसिंग	200 आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर	
• 12 मीटर एवं अधिक किन्तु 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर	200 आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर	
• 18 मीटर एवं अधिक किन्तु 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर	250 आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर	
• 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर	330 आवासीय इकाईयां प्रति हेक्टेयर	
अधिकतम भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर.		
भू-उपयोग श्रेणी	भू-आच्छादन	एफ.ए.आर.
1. आवासीय		
(क) प्लॉट डेवलपमेन्ट	65 प्रतिशत	2.00
(ख) गुप हाउसिंग	35 प्रतिशत	2.50
2. व्यवसायिक		
(क) 2500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड	50 प्रतिशत	1.50
(ख) 2500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड	50 प्रतिशत	2.50
3. मिश्रित	40 प्रतिशत	3.0
4. कार्यालय एवं संस्थागत	35 प्रतिशत	2.50
5. औद्योगिक (प्रदूषणमुक्त)	50 प्रतिशत	2.00
6. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	35 प्रतिशत	2.00
7. मनोरंजन	20 प्रतिशत	0.25

hull

टिप्पणी:

(1) प्लाटेट डेवलपमेंट को छोड़कर अन्य उपयोगों के लिए उपरोक्त तालिका में दिये गये एफ.ए.आर. के अतिरिक्त नियमानुसार 50 प्रतिशत क्य-योग्य एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमत्त होगा कि क्य-योग्य सहित कुल एफ.ए.आर. 4.0 से अधिक नहीं होगा। क्य-योग्य एफ.ए.आर. हेतु शुल्क की गणना अधिसूचना संख्या-3589/8-3-2011-11विधि/08, दिनांक 04.8.2011 में निर्धारित (समय-समय पर यथासंशोधित) फार्मुले के अनुसार की जायेगी, परन्तु उक्त अधिसूचना में मिश्रित, औद्योगिक तथा मनोरंजन भू-उपयोग के लिए क्य-योग्य फैक्टर (गुणांक) निर्धारित नहीं हैं, जो निम्नवत् होंगे:-

भू-उपयोग श्रेणी	क्य-योग्य फैक्टर (गुणांक)
• मिश्रित	0.60
• औद्योगिक	0.40
• मनोरंजन	0.30

यदि उपरोक्त क्य-योग्य फैक्टर (गुणांक) में भविष्य में कोई संशोधन होता है, तो संशोधित गुणांक लागू होंगे।

(2) मिश्रित उपयोग के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 मीटर होगी।

- 8.6 भू-उपयोग मानकों के अनुसार पार्क एवं खुले क्षेत्रों का प्राविधान 'हेरार्किकल' आर्डर में किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत 'सेक्टर/नेबरहुड' स्तर से लेकर टाउनशिप स्तर तक के पार्क एवं खुले क्षेत्रों एवं क्रीडा स्थलों हेतु भूमि आरक्षित की जाएगी।
- 8.7 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का नियोजन एवं अभिकल्पन भूमि के इष्टतम उपयोग तथा सुरक्षित पर्यावास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा।
- 8.8 टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोगों में विभिन्न क्रियाओं का नियोजन सम्बन्धित नगर की महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार किया जाएगा तथा स्थल विकास/निर्माण की अन्य अपेक्षाएं एवं पार्किंग व्यवस्था के मानक सम्बन्धित क्षेत्र में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होंगी। जहां महायोजना लागू नहीं है, वहां शासन द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का अनुपालन किया जाएगा।

9. डी.पी.आर. का अनुमोदन, विकास अनुबन्ध एवं परियोजनावधि

- 9.1 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम को लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त 03 वर्ष के अन्दर टाउनशिप की डी.पी.आर. प्राधिकरण/आवास परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करनी होगी, जिस हेतु टाउनशिप की कुल भूमि का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम के स्वामित्व में अनिवार्यतः होना चाहिए। इस 50 प्रतिशत भूमि में वह भूमि भी शामिल की जा सकेगी जो विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा किसानों के साथ 'लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट' अथवा 'डेवलपर एग्रीमेन्ट' के रूप में पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से असेम्बल की जाएगी। डी.पी.आर. के अन्तर्गत लैण्डयूज प्लान, ले-आऊट प्लान, सर्कुलेशन प्लान एवं रोड क्रास सेक्शन, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज़ यथा-जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, कूड़ा-निस्तारण व्यवस्था, लैण्डस्केप प्लान तथा अन्य जनसुविधाओं की विशिष्टियां एवं प्लान, योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु चरणबद्ध समय-सारिणी (प्रत्येक चरण के प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की तिथि एवं प्रत्येक चरण में भूमि क्य/असेम्बली, विकास कार्य, सम्पत्ति निस्तारण के 'पर्ट-चार्ट' सहित), परियोजना लागत एवं वित्त पोषण व्यवस्था, सम्पत्ति प्रवन्धन, टाउनशिप के रख-रखाव तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु प्रस्ताव शामिल होंगे। डी.पी.आर. के अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि तथा अन्य के स्वामित्व की भूमि का विवरण सजरा मानचित्र एवं ले-आउट प्लान पर स्पष्टतः चिन्हित किया जाएगा।

*Handwritten signature*



9.2 डी.पी.आर. का परीक्षण इस नीति के प्रस्तर-4.2 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा और उसकी संस्तुति के आधार पर आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा डी.पी.आर. पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। समिति द्वारा उक्त कार्यवाही प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को डी.पी.आर. प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जाएगी।

9.3 विकासकर्ता द्वारा लाईसेन्स जारी होने तिथि से 4 वर्ष के अन्दर प्रथम ले-आउट प्लान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। विकासकर्ता को निम्नानुसार चरणबद्ध रूप से भी ले-आउट प्लान स्वीकृत कराने की भुविधा प्रदान की जाएगी, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक चरण में विकासकर्ता के पास न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल का स्वामित्व (जिसके अन्तर्गत 'लैण्ड पूलिंग एग्रीमेन्ट' अथवा 'डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट' की भूमि भी शामिल हो सकती है), होना चाहिए और विस्तारित क्षेत्र सहित प्रत्येक चरण का ले-आउट प्लान/डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट की भूमि निरन्तरता में होनी चाहिए:-

क्षेत्रफल	ले-आउट प्लान/विकास अनुबन्ध की अधिकतम संख्या
• 50 एकड़ तक	01
• 50 से अधिक 100 एकड़ तक	02
• 100 से अधिक 500 एकड़ तक	04

टिप्पणी: विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक चरण के ले-आउट प्लान में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के भवनों तथा सामुदायिक सुविधाओं यथा-शैक्षिक, चिकित्सा, पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, बस स्टेशन, आदि हेतु ले-आउट प्लान में भूमि अनिवार्य रूप से ऐसे स्थलों पर आरक्षित की जाएगी, जिसका स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पक्ष में हो।

9.4 शासनादेश संख्या: 4165/आठ-1-05-29 विविध/98, दिनांक 7 जुलाई, 2006 तथा शासनादेश संख्या: 6113/आठ-1-06-26 जी.डी.ए./04, दिनांक 18 अगस्त, 2006 के प्राविधानानुसार 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। परन्तु इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना के ले-आउट प्लान की स्वीकृति हेतु आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा तथा ले-आउट प्लान की स्वीकृति उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त के स्तर से दी जाएगी। विकासकर्ता के स्वामित्व वाली भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि, जिसका पूर्ण स्वामित्व विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, पर विकासकर्ता को 'डेवलपमेंट राइट्स' नहीं होंगे। ले-आउट प्लान की स्वीकृति के समय विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा सम्यन्धित विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के साथ निर्धारित प्रपत्र पर विकास अनुबन्ध (डेवलपमेंट एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जाएगा, जिसका मानक प्रपत्र अलग से जारी किया जाएगा। प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा ले-आउट प्लान की स्वीकृति और विकास अनुबन्ध की कार्यवाही एक साथ सम्पन्न कराना अनिवार्य होगा तथा उक्त कार्यवाही के पूर्ण होते ही लाइसेन्स जारी करने के समय प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में विकासकर्ता द्वारा बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि अवमुक्त कर दी जायेगी।

9.5 टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होने पर उसके समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं एवं ग्रामीण आवासियों का विकास पूर्ण करने हेतु परियोजनावधि विस्तारित क्षेत्र सहित 08 वर्ष होगी। टाउनशिप का क्षेत्रफल 51-100 एकड़ होने पर परियोजनावधि 09 वर्ष, 101-200 एकड़ होने पर परियोजनावधि 10 वर्ष तथा 201-500 एकड़ होने पर परियोजनावधि 12 वर्ष होगी।

WdL



डी.पी.आर. स्वीकृति के उपरान्त यदि विकासकर्ता द्वारा किसी न्यायालय के स्थगनादेश अथवा अन्य कारणों से लैण्ड असेम्बली समयवद्ध रूप से पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, तो परियोजनावधि में विस्तार के सम्वन्ध में 'केस-टू-केस' आधार पर प्राधिकरण बोर्ड/परिषद बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा डी.पी.आर. के अन्तर्गत प्रतियद्ध 'टाइम-शेड्यूल' में डिफाल्ट होने अथवा परियोजना अवधि में विस्तार अनुमन्य किए जाने के सम्वन्ध में भी प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

9.7 विकास कार्यों का क्रियान्वयन डी.पी.आर. के अनुरूप एवं उसमें निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विकास प्राधिकरण /आवास परिषद को उक्त कार्यों के निरीक्षण का अधिकार होगा, जिस हेतु विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम द्वारा नियमानुसार निरीक्षण शुल्क देय होगा। प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद द्वारा इस हेतु यथोचित प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी तथा यथावश्यकतानुसार स्वतन्त्र संस्था के माध्यम से भी उक्त कार्य कराया जा सकता है।

10. भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास

10.1 टाउनशिप के अन्तर्गत सगस्त आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित कराए जाएंगे।

स्पष्टीकरण (I)—भूमि के आन्तरिक विकास में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे—

- (क) भूमि का समतलीकरण (जहां आवश्यक हो),
- (ख) सड़कें,
- (ग) ड्रेनेज,
- (घ) जलापूर्ति,
- (ङ) सीवररेज,
- (च) आन्तरिक विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट-लाइटिंग,
- (छ) सॉलिड वेस्ट कलेक्शन
- (ज) पाकों, क्रीड़ा-स्थलों तथा तत्समान प्रयोजनों के लिए मानकों के अनुसार खुले स्थान का प्राविधान एवं वृक्षारोपण,
- (झ) रेनवाटर हार्वेस्टिंग,
- (ञ) शिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं, सामुदायिक केन्द्रों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं के लिए मानकों के अनुसार भूमि का आरक्षण।

स्पष्टीकरण (II)—भूमि के वाह्य विकास में टाउनशिप के आन्तरिक विकास के प्रत्येक कार्यान्वयन के सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण एवं कार्यशील होने के लिए टाउनशिप की सीमा के अन्दर अथवा बाहर अपेक्षित कार्य शामिल होंगे। वाह्य विकास के कार्यान्वयन निम्नवत होंगे—

- (क) महायोजना/प्रमुख मार्ग (30 मीटर एवं अधिक चौड़े)
- (ख) सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था/मास रैपिड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था
- (ग) इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन
- (घ) जलापूर्ति का स्रोत तथा जल भण्डारण/वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
- (ङ) ट्रंक वाटर लाईन
- (च) ट्रंक सीवर लाईन

well

- (ख) ट्रंक ड्रेन/नाला
- (ज) सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट
- (झ) एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट
- (ञ) टाउनशिप लेविल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एवं ट्रांसफर व्यवस्था

10.2 प्रस्तावित टाउनशिप के लिए चयनित स्थल तक एम.डी.आर./ओ.डी.आर. से न्यूनतम 30 मीटर चौड़े पहुँच मार्ग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए अन्यथा पहुँच मार्ग की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा स्वयं की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा यदि कतिपय वाह्य विकास कार्यों जैसे-रोड कनेक्शन, जल-निकासी, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेंज, आदि हेतु 'कनेक्टिविटी' प्राप्त की जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित शासकीय अभिकरण को समानुपातिक व्यय देय होगा।

10.3 भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान निम्नवत् सुनिश्चित किया जाएगा:-

#### (I) रोड नेटवर्क एवं ट्रांसपोर्टेशन

रोड नेटवर्क एक सुपरिभाषित हैराकी से युक्त होगा जिसमें आर्टिथ्रिल से लेकर कलेक्टर रोड तथा सर्विस रोड तक का प्राविधान किया जाएगा और टाउनशिप के अन्दर एवं बाहर के रोड नेटवर्क से समुचित लिन्केज स्थापित की जाएगी। सड़कों का निर्माण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों तथा उनकी विशिष्टियों इण्डियन रोड कांग्रेस /बी.आई.एस. के मानकों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित सड़कों के फास-सेक्शन के अन्तर्गत कौरिज-वे, मीडियन, फुटपाथ, ग्रीनवर्ज एवं पेड़ तथा यूटीलिटीज की स्थिति दर्शाई जाएगी। 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट' के लिए बस स्टॉप/स्टेशन सहित पर्याप्त प्राविधान किया जाएगा और रोड नेटवर्क एवं यातायात सुविधाओं को 'लेण्डयूज डिस्ट्रीब्यूशन' से भलीभांति समन्वित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार साइकिल ट्रैक एवं पैदल संचलन (पेडेस्ट्रियन पाथवे) क्षेत्र भी नियोजित किए जाएंगे।

#### (II) जलापूर्ति

विकासकर्ता द्वारा आवासीय एवं गैर-आवासीय मांग हेतु 150-200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से 24x7 के मानक के अनुसार जलापूर्ति प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें जल के उपचार, संग्रहण एवं वितरण 'नेटवर्क' की व्यवस्था हो। इन सुविधाओं की क्षमता टाउनशिप की जनसंख्या, आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत श्रमिक शक्ति तथा अग्निशमन आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 'लेण्डस्केपिंग' एवं वागवानी, इत्यादि कार्यों के लिए 'वॉटर रिसाइक्लिंग' का प्राविधान सुनिश्चित किया जाएगा।

#### (III) सीवरेंज

विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत भूमिगत सीवरेंज सिस्टम का प्राविधान पर्याप्त ढाल के साथ किया जाएगा। ट्रंक सीवर से 'कनेक्टिविटी' उपलब्ध न होने की दशा में सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु एस.टी.पी. का प्राविधान करना अनिवार्य होगा। उपचारित जल के लगभग 80 प्रतिशत अंश की रिसाइक्लिंग, पर्यावरण नार्म्स के अनुसार वागवानी एवं फ्लशिंग कार्यों के लिए की जाएगी। एस.टी.पी. की लोकेशन वायु की प्रचलित दिशा के आधार पर तय की जाएगी और उसके चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।

hand



(IV) स्टार्म वाटर ड्रेनेज

ड्रेनेज सिस्टम का अभिकल्पन मिट्टी की विशेषताओं विशेषकर जल सोखने की क्षमता, पार्क एवं खुले क्षेत्रों तथा अन्य गैर-आवासीय उपयोगों के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। स्टार्म वाटर ड्रेन का अभिकल्पन 1.2 से.मी. से 2.5 से.मी. वृष्टि (सिनफ़ाल) प्रति घंटा की दर से किया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा ड्रेनेज के अन्तिम बिन्दु तक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(V) इन्टीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट

अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में टाउनशिप का पर्यावरण पर बाह्य प्रभाव सूच्य होगा, जिस हेतु विकासकर्ता द्वारा इन्टीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए सम्बन्धित स्थानीय निकाय/अभिकरण से समन्वय कर समुचित उपाय किए जाएंगे। सेनेटरी लैण्डफिल साइट के लिए टाउनशिप से दूर उपयुक्त स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त कूड़े से ऊर्जा उत्पन्न करने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

(VI) विद्युत-आपूर्ति एवं वितरण

विद्युत-वितरण प्रणाली आधुनिक कन्ट्रोल फ़ैसिलिटीज़ के साथ पूर्णतः भूमिगत होगी तथा विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत विश्वस्त विद्युत वितरण की सुविधा 24x7 के मानक के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु विकासकर्ता द्वारा विद्यमान सलाई सिस्टम से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के टाउनशिप हेतु आवश्यक लोड तथा अन्वय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन से विद्युत कय की जा सकती है अथवा कौण्टि पॉवर जनरेशन की व्यवस्था भी की जा सकती है।

(VII) अन्य उपयोगिताएं

घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार पाइपयुक्त गैस लाइन का प्राविधान तथा सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन के लिए मानकों के अनुसार भूमि आरक्षित की जाएगी। इसके अतिरिक्त पार्क एवं कीड़ा स्थलों के लिए आरक्षित भूमि, जलाशयों तथा 'सिटी फारेस्ट' का विकास शासकीय नीतियों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(VIII) यूटीलिटी डक्ट का प्राविधान

भूमिगत अवस्थापना सुविधाओं यथा-जलापूर्ति, सीवरज एवं ड्रेनेज, विद्युत-आपूर्ति, रूट्रीट लाइट तथा संचार सुविधाओं, आदि के लिए टाउनशिप के अन्तर्गत सड़कों के किनारे लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की विशिष्टियों के अनुसार भूमिगत 'यूटीलिटी डक्ट' का प्राविधान किया जाएगा।

(IX) सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं

विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं यथा-शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान सम्वन्धित क्षेत्र में लागू भवन उपविधि में निहित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेंडिंग जोन फॉर स्ट्रीट वेल्डर्स, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड्स, बस स्टेशन, बस पार्किंग बेज, एम0एस0डब्ल्यू0 प्राइमरी ट्रांसफर स्टेशन का भी मानकों के अनुसार प्राविधान किया जायेगा।

*hunk*



## 11. परफार्मेंस गारण्टी

11.1 टाउनशिप का क्रियान्वयन अनुमोदित डी.पी.आर. एवं विकास अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करने तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा विकास अनुबन्ध के निष्पादन के समय योजनान्तर्गत 20 प्रतिशत विक्रय-योग्य भूमि आवासीय, मिश्रित एवं व्यवसायिक भू-उपयोग में समानुपातिक रूप से चिन्हित करते हुए (ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग क्षेत्र को छोड़कर) प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बंधक रखी जाएगी। बंधक रखी जाने वाली भूमि का स्वामित्व निर्विवाद रूप से विकासकर्ता के पक्ष में होना चाहिए। बंधक रखी गई 20 प्रतिशत भूमि पर विकासकर्ता को विकास करने का अधिकार होगा, परन्तु उस पर निर्मित/सृजित किसी सम्पत्ति को विक्रय करने अथवा उसमें 'थर्ड पार्टी इन्ट्रेस्ट' उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा। यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त उपबन्ध का उल्लंघन किया जाता है, तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा विशिष्टियों के अनुरूप जैसे-जैसे विकास कार्य पूर्ण किए जाएंगे, उसी अनुपात में बंधक रखी भूमि विकासकर्ता के पक्ष में अवमुक्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण:-विकास कार्य पूर्ण होने का तात्पर्य टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरज, विद्युत-आपूर्ति, पार्क, क्रीडा स्थल एवं ग्रीन बेल्ट तथा सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं के कार्यशील होने से है।

11.2 विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा टाउनशिप की कुल विक्रय-योग्य भूमि का 20 प्रतिशत भाग अपने पक्ष में बन्धक/गिरवी रखने हेतु विकासकर्ता कम्पनी से निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकृत अनुबन्ध निष्पादित कराया जाएगा। विकासकर्ता द्वारा यदि कोई विकास कार्य अधूरा छोड़ा जाता है, तो उसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा बन्धक रखी गई भूमि के विक्रय से प्राप्त धनराशि से पूर्ण कराया जाएगा।

## 12. सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण

12.1 विकासकर्ता/कन्सॉर्शियम को अपनी योजनान्तर्गत भवनों/फ्लैट्स/अन्य विकसित सम्पत्तियों के आवंटन, विक्रय अथवा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने का अधिकार डिटेल्ड ले-आउट प्लान की स्वीकृति पश्चात ही अनुमन्य होगा।

12.2 विकासकर्ता द्वारा आवंटियों को विकसित सम्पत्तियों का कब्जा दिए जाने से पूर्व हस्तान्तरण विलेखों का निबन्धन कराना अनिवार्य होगा।

12.3 योजनान्तर्गत भूमि विकास के उपरांत विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों पर विकासकर्ता/आवंटियों द्वारा नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।

12.4 योजनान्तर्गत दुर्बल आय एवं अल्प आय वर्गों हेतु निर्मित भवनों तथा सामाजिक अवरस्थापना सुविधाओं हेतु सृजित सम्पत्तियों का आवंटन/निस्तारण प्रभावी शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।

## 13. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग निर्माण के लिए अपेक्षाएं

विकासकर्ता द्वारा शासनादेश संख्या: 3188/आठ-1-13-80विधि/2010, दिनांक 05.12.2013 एवं समय-समय पर यथासंशोधित शासकीय नीति के अनुसार आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवासीय सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रत्येक डेवलपमेंट एग्रीमेंट के निष्पादन की तिथि को प्रभावी नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। सुलभ सन्दर्भ हेतु वर्तमान नीति के प्राविधान निम्नवत् हैं:-

## 13.1 लाभार्थी की आय सीमा

ई.डब्ल्यू.एस. परिवार की वार्षिक आय रु. 1.0 लाख तक तथा एल.आई.जी. परिवार की वार्षिक आय रु. 1.0 लाख से अधिक परन्तु रु. 2.0 लाख तक होगी। भविष्य में

*Handwritten signature*

हडको/भारत सरकार द्वारा उक्त मानक पुनरीक्षित करने पर उसे यथावत् लागू होगी अन्यथा वार्षिक आय सीमा को प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

13.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं आवासीय इकाइयों का 'विल्ट-अप एरिया'

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए भूखण्डीय विकास में भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल तथा ग्रुप हाउसिंग पद्धति में आवासीय इकाइयों के लिए 'विल्ट-अप एरिया' के लिए मानक निम्नवत् होंगे:-

क्र.सं.	आय वर्ग	भूखण्डीय विकास में भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमी.)	ग्रुप हाउसिंग में आवासीय इकाई का विल्ट-अप एरिया(वर्ग मी.)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	30-35	25-35
2.	एल.आई.जी.	40-50	35 से अधिक 48 तक

प्रतिबन्ध यह है कि भूखण्डीय विकास में भी भूखण्ड पर यथारिथति ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, तथा भवन निर्माण की लागत 'सीलिंग-कास्ट' में सम्मिलित होगी। भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण ग्रुप-हाउसिंग के रूप में भी किया जा सकेगा। ग्रुप हाउसिंग के रूप में निर्मित किए जा रहे ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन चार से अधिक मजिलों के साथ भी निर्मित किए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण-'विल्ट-अप एरिया' से तात्पर्य आवासीय इकाई के निर्मित क्षेत्रफल से है, जिसमें दीवारें, कमरे, वाथरूम, रसोईघर, बालकनी, आदि से आच्छादित क्षेत्रफल सम्मिलित होगा, जो भवन स्वामी के एकान्तिक कब्जे (एक्सक्लूसिव पोर्जेशन) में होगा। 'विल्ट-अप एरिया' के अन्तर्गत "साझा क्षेत्रों और सुविधाओं" (कामन एरियाज एण्ड फ़ैसिलिटीज़) का "अविभाजित हित" (अनडिवाइडेड इन्ट्रेस्ट) सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

13.3 योजनान्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का प्रतिशत

विकासकर्ता द्वारा (भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग) योजना में प्रस्तावित कुल आवासीय इकाइयों (भूखण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10-10 प्रतिशत (कुल 20 प्रतिशत) क्रमशः ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण टाउनशिप के अन्दर करना अनिवार्य होगा। यदि विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार कय-योग्य एफ.ए.आर. लिया जाता है, वहां उक्त अतिरिक्त एफ.ए.आर. के सापेक्ष भी समानुपातिक रूप से ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण किया जाना होगा।

13.4 आवासीय इकाइयों की 'सीलिंग कास्ट'

ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का सीलिंग मूल्य क्रमशः रु. 3.25 लाख तथा रु. 7.00 लाख इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि उक्त सीलिंग कास्ट ई.डब्ल्यू.एस. भवन के 25 वर्गमीटर 'विल्ट-अप एरिया' तथा एल.आई.जी. भवन के 35 वर्गमीटर 'विल्ट-अप एरिया' के लिए प्रभावी होगी। 'विल्ट-अप एरिया' उक्त से अधिक होने पर भवनों के वास्तविक 'विल्ट-अप एरिया' के सापेक्ष "प्रो-राटा (समानुपातिक) आधार पर सीलिंग कास्ट आंकलित की जाएगी। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीलिंग कास्ट 20 प्रतिशत अधिक होगी। भविष्य में हडको/भारत सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट पुनरीक्षित करने पर यथावत् लागू होगी अन्यथा उसे प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।

*Handwritten signature*



### 13.5 भवनों के निर्माण हेतु 'परफार्मेन्स गारन्टी'

विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण/आवास परिषद के साथ विकास अनुबंध निष्पादन के समय 'ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण के सापेक्ष 'परफार्मेन्स गारन्टी' देय होगी। बैंक गारन्टी होने की दशा में उसकी धनराशि सम्यक्स्थित योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि मूल्य के बराबर होगी और भूमि मूल्य की गणना वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर की जाएगी। बैंक गारन्टी की वैधता अवधि न्यूनतम एक वर्ष होगी। बैंक गारन्टी की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा इसके नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि बैंक गारन्टी 'लैप्स' न होने पाए। बैंक गारन्टी के स्थान पर यह विकल्प होगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना के कुल क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि जो विकय-योग्य हो, विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के पक्ष में दन्धक/गिरवी रखी जा सकती है। यह भूमि आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों के सापेक्ष बंधक/गिरवी रखी जाने वाली 20 प्रतिशत भूमि के अतिरिक्त होगी। बंधक/गिरवी रखी जाने वाली 10 प्रतिशत भूमि को ले-आऊट पर चिह्नित करते हुए 'मोर्टगेज डीड' निष्पादित करनी होगी, जिसे ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के निर्माण की प्रगति के साथ-साथ समानुपातिक रूप से अवमुक्त किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा यदि ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण नहीं किया जाता है अथवा अधूरा छोड़ा जाता है, तो प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा बैंक गारन्टी को जब्तकर एवं भुना कर अथवा दन्धक रखी गई दस प्रतिशत भूमि के विकय से प्राप्त धनराशि से ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। डिफाल्टर विकासकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

इसके अतिरिक्त ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण योजना के अन्य आवासीय स्टॉक की मौलिक प्रगति के अनुपात में किया जाना होगा। उदाहरणार्थ, किसी टाउनशिप में प्रस्तावित 100 भवनों में से यदि विकासकर्ता द्वारा प्रथम चरण में 40 भवन बनाने हैं, तो इन भवनों के साथ-साथ 4-4 ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन भी बनाने होंगे।

### 13.6 विकासकर्ताओं को 'इन्वेस्टिव'

विकासकर्ता को ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के तल क्षेत्रफल के समतुल्य आवासीय उपयोग का निःशुल्क एफ.ए.आर., जो बैसिक एफ.ए.आर. (+) कय-योग्य एफ.ए.आर. के अतिरिक्त होगा, उसी योजनान्तर्गत अनुम्य होगा एवं उसके सापेक्ष समानुपातिक रूप से आवासीय इकाइयां भी अनुम्य होंगी। विकासकर्ता को अनुम्य अतिरिक्त निःशुल्क एफ.ए.आर. के आधार पर योजना के ले-आउट प्लान/भवन मानचित्र सशर्त अनुमोदित किए जायेंगे, परन्तु 'इन्वेस्टिव' के रूप में अनुम्य अतिरिक्त एफ.ए.आर. का उपयोग ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही अनुम्य होगा।

### 13.7 भवनों के आवंटन की प्रक्रिया

लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही समय से शासन द्वारा समय-समय पर घोषित/संशोधित नीति के अनुसार पारदर्शी लाटरी प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी। भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभार्थियों को भवनों का आवंटन नियमानुसार किया जायेगा। इसके लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित करते हुए शासनदेश निर्गत किया जाएगा।

### 13.8 भवनों के विकय/हस्तान्तरण पर रोक

ई-डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का आवंटन 'लीज-होल्ड' के आधार पर किया जाएगा, जिसके विकय/हस्तान्तरण पर आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा

*huff*

करने की तिथि, जो भी याद में हो, तक प्रतिबन्ध रहेगा तथा उक्त अवधि के पश्चात् लाभार्थी के पक्ष में फ्री-होल्ड किया जा सकेगा। ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन 'हेरिटेबल' होंगे। एक से अधिक ई.डब्ल्यू.एस. अथवा एल.आई.जी. भवनों का 'अमलगमेशन' अथवा उन्हें जोड़कर एक इकाई/भवन बनाना प्रतिबन्धित होगा।

### 13.9 नियोजन एवं भवन निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवन एफ.ए.आर. तथा डेन्सिटी के प्राविधानों से मुक्त रहेंगे। भवनों के नियोजन तथा अभिकल्पन एवं निर्माण की अन्य अपेक्षाएं विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद में लागू भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार होंगी। इसके अतिरिक्त टाउनशिप के अन्तर्गत जहां ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण 'क्लस्टर' के रूप में किया जाए, वहां गानकों के अनुसार सामुदायिक सुविधाएं यथा—स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, पार्क, कूड़ा—एकत्रीकरण स्थल, इत्यादि का अनिवार्य रूप से प्राविधान किया जाएगा।

### 14. विकासकर्ता की भूमिका एवं दायित्व

- 14.1 विकासकर्ता द्वारा इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए निर्धारित लैण्डयूज प्लानिंग नार्म्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना की डी.पी.आर. इन्ही नार्म्स के आधार पर तैयार कर प्राधिकरण/आवास परिषद को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी।
- 14.2 विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप की सुरक्षा एवं 'सस्टेनेबिलिटी' हेतु टाउनशिप के नियोजन और महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं निर्माण कार्यों में डिजास्टर मैनेजमेंट, निःशक्त जन-कल्याण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, अग्नि शमन व्यवस्था, आदि से सम्बन्धित शासकीय नीतियों तथा बी.आई.एस. एवं आई.एस. के सुसंगत कोड का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अग्निशमन सम्बन्धी मानकों के अनुसार वांछित 'इविवपमेन्ट' विकासकर्ता द्वारा निजी व्यय पर अग्निशमन विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
- 14.3 विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक स्टेट्यूटरी एवं नियमानुसार वांछित अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वयं प्राप्त किए जाएंगे।
- 14.4 विकासकर्ता द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत टाउनशिप के अन्तर्गत आवासीय भूमि पर स्वविवेक के आधार प्लॉट डेवलपमेन्ट अथवा ग्रुप हाउसिंग का विकास/निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों को विकसित भूखण्डों अथवा निर्मित भवनों के रूप में आवंटन/विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 14.5 विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तर-13 के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के लिए भवनों का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु टाउनशिप के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का जितना दायित्व बनता है, का भी गानचित्र विकासकर्ता द्वारा प्रत्येक चरण के ले-आउट प्लान के साथ स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- 14.6 टाउनशिप के अन्तर्गत पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन तथा विद्युत सब-स्टेशन हेतु प्रभावी शासनादेशों के अनुसार विकासकर्ता द्वारा भूमि सम्बन्धित संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य सामुदायिक सुविधाओं यथा—पोस्ट आफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, स्कूल तथा अस्पताल, आदि के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी आवंटन एवं मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार भूमि उपलब्ध करायी जाएगी।



14.7 प्रस्तावित टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाली ग्रामीण आवादियों अथवा ऐसी ग्रामीण आवादियों जो टाउनशिप के अन्दर नहीं आ रही हैं परन्तु विकासकर्ता द्वारा उस राजस्व ग्राम की भूमि को अपनी योजना के उपयोग में लाया जा रहा है, के विकास हेतु शासनादेश संख्या 2157/आठ-1-11-164विधि/2010, दिनांक 22.7.2011 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

(क) टाउनशिप के अन्दर स्थित ग्रामीण आवादियों के विकास पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विकासकर्ता द्वारा अपनी योजना अन्तर्गत 'कास सक्सिडाइजेशन' के माध्यम से की जाएगी। विकासकर्ता द्वारा संपन्न अवस्थापना सुविधाओं यथा-लैंक रोड, पेरीफेरल एवं आन्तरिक सड़कों, मार्ग-प्रकाश व्यवस्था, ड्रेनेज, सीवेज निस्तारण, जलापूर्ति तथा तालाबों/पोखरों/जलाशयों का जीर्णोद्धार/संरक्षण, आदि से सम्बन्धित कार्य स्वयं कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक अवस्थापना सुविधाएं यथा-प्राथमिक पाठशाला, डिस्पेन्सरी, सामुदायिक केन्द्र के लिए मानकों के अनुसार भूमि उपपलब्ध करायी जाएगी और डिस्पेन्सरी के अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाओं के भवनों का निर्माण विकासकर्ता द्वारा स्वयं कराया जाएगा, जबकि डिस्पेन्सरी हेतु विकासकर्ता द्वारा उपपलब्ध कराई गई भूमि पर भवन का निर्माण चिकित्सा विभाग द्वारा कराया जाएगा।

(ख) ऐसी ग्रामीण आवादियाँ जो टाउनशिप के अन्दर नहीं आ रही हैं, परन्तु विकासकर्ता द्वारा उस राजस्व ग्राम की भूमि को अपनी योजना के उपयोग में लाया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में ग्रामीण आवादी के विकास के लिए विकासकर्ता द्वारा कय/अधिग्रहीत भूमि के 'ग्रास-परिया' पर रूपया एक लाख प्रति एकड़ की दर से धनराशि प्राधिकरण/आवास परिषद में जमा करनी होगी। सम्बन्धित क्षेत्र में एक से अधिक विकासकर्ता की टाउनशिप्स प्रस्तावित होने की दशा में समस्त विकासकर्ताओं द्वारा समानुपातिक रूप से विकास कार्यों/धनराशि का वहन करना होगा। विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि को विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा एक अलग बैंक खाते में रखा जायेगा, जिसके सन्बन्ध में उचित माध्यम (यथा-समाचार पत्रों) द्वारा पब्लिक इन्क्वैरेशन भी जारी की जायेगी तथा जमा धनराशि से विकास कार्य विकास प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा ही कराए जाएंगे।

14.8 टाउनशिप के विकास के फलस्वरूप सम्बन्धित नगर की विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर बढ़ने वाले दबाव के दृष्टिगत उनके सम्बर्द्धन एवं सुदृढीकरण हेतु विकासकर्ता द्वारा विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद को डी.पी.आर. की स्वीकृति के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नगरीय विकास शुल्क देय होगा।

14.9 प्रस्तावित टाउनशिप के भू-उपयोग नियोजन, विकास/निर्माण कार्यों और आपरेशन एवं मेट्रीनेन्स में जल और ऊर्जा के संरक्षण, सोलर इनर्जी के उपयोग, प्रदूषण नियन्त्रण तथा 'ग्रीन कवर' के रख-रखाव हेतु समुचित प्राविधान किए जाएंगे। टाउनशिप परियोजना के सन्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति विकास/निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14.10 विकसित टाउनशिप की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तांतरण होने तक उनके रख-रखाव हेतु विकासकर्ता एवं विकास प्राधिकरण/आवास परिषद के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित होगा की रख-रखाव की धनराशि कितनी होगी और उसके स्रोत क्या होंगे। रख-रखाव हेतु वसूल की जाने वाली धनराशि एक 'एस्को एकाउन्ट' में जमा की जाएगी। टाउनशिप की सेवाओं यथा-सड़कों, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवेज, विद्युत-आपूर्ति, कूड़ा-निस्तारण, संचार व्यवस्था, रेनवाटर ड्रावैस्टिंग, पार्क एवं खुले स्थल, आदि के रख-रखाव से सम्बन्धित कार्य

hmd

विकासकर्ता द्वारा कराए जाएंगे तथा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख-रखाव हेतु बसूल की गई धनराशि अनुमन्य कार्यों पर ही व्यय की जाए। विकसित टाउनशिप का स्थानीय निकाय को रख-रखाव के लिए हस्तान्तरण होने तक उ.प्र. नगर महापालिका अधिनियम-1959 की धारा-221 के अधीन गृह कर एवं जल कर में छूट अनुमन्य होगी। सम्वन्धित स्थानीय निकाय टाउनशिप की सेवाओं के रख-रखाव के हस्तान्तरण के पूर्व मापदण्डों के अनुरूप सामान्य सेवाओं को ठीक कराएंगे तथा हस्तान्तरण के समय 'एस्को एकाउन्ट' में जमा धनराशि सहित स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट्स/गुप हाउसिंग भवनों के रख-रखाव हेतु जब तक अपार्टमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन/रेज़ीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनता है, तब तक प्रचलित अपार्टमेन्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ऐसे भवनों में कॉमन सुविधाओं का रख-रखाव विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए अलग 'एस्को एकाउन्ट' की व्यवस्था की जायेगी।

15. योजना के कियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स

लाईसेन्स जारी होने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा योजना के विभिन्न चरणों से सम्वन्धित कार्य निम्न माइलस्टोन्स के अनुसार पूर्ण किये जायेंगे:-

क्र. सं.	कार्य का चरण	टाउनशिप के क्षेत्रफल के आधार पर माइलस्टोन्स			
		50 एकड़ तक	51-100 एकड़ तक	101-200 एकड़ तक	201-500 एकड़ तक
(1)	लाइसेन्स निर्गमन	D	D	D	D
(2)	डी.पी.आर. प्रस्तुत करना	D+3 वर्ष	D+3 वर्ष	D+3 वर्ष	D+3 वर्ष
(3)	प्रथम विकास अनुबन्ध निष्पादन	D+4 वर्ष	D+4 वर्ष	D+4 वर्ष	D+4 वर्ष
(4)	द्वितीय विकास अनुबन्ध निष्पादन	-	D+5 वर्ष	D+5 वर्ष	D+5 वर्ष
(5)	तृतीय विकास अनुबन्ध निष्पादन	-	-	D+6 वर्ष	D+6 वर्ष
(6)	चतुर्थ विकास अनुबन्ध निष्पादन	-	-	-	D+7 वर्ष
(7)	अवस्थापना विकास, ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों का निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं तथा ग्रामीण आबादियों के विकास कार्य पूर्ण करना	D+8 वर्ष	D+9 वर्ष	D+10 वर्ष	D+12 वर्ष

टिप्पणी: उपरोक्त माइलस्टोन्स के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण/आवास परिषद में डी.पी.आर. अथवा ले-आउट प्लान जमा हो जाने के उपरान्त स्वीकृति एवं विकास अनुबन्ध निष्पादन में लगने वाला समय शामिल नहीं होगा, परन्तु डी.पी.आर./ले-आउट प्लान/विकास अनुबन्ध की स्वीकृति के सम्वन्ध में यदि विकासकर्ता को आपत्तियां सूचित की जाती हैं, तो उनके निराकरण में लगने वाला समय माइलस्टोन्स में निर्धारित समय-सीमा में शामिल होगा।

16. डिफाल्ट की स्थिति में कार्यवाही

विकासकर्ता द्वारा नीति के विभिन्न प्राविधानों अथवा टाइम-लाईन्स का अनुपालन न करने की दशा में उसके विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

*Handwritten signature*



- 16.1 लाइसेन्स जारी होने के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा डी.पी.आर. प्रस्तुत करने अथवा प्रथम विकास अनुबन्ध के निष्पादन के लिए यदि प्रस्तर-15 में निर्धारित माइलस्टोन्स का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो एक माह का 'शो-कॉज नोटिस' देकर उसका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा और विकासकर्ता के स्वामित्व की विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि जप्त कर ली जायेगी।
- 16.2 विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों तथा टाइम शेड्यूल के अनुसार विकासकर्ता द्वारा यदि टाउनशिप के विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध विकास अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 16.3 विकासकर्ता द्वारा यदि नगरीय विकास शुल्क अथवा अन्य देय शुल्कों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनकी वसूली अधिनियम में निहित व्यवधानुसार भू-राजस्व के बकाये की भांति की जायेगी।
- 16.4 विकासकर्ता द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त एवं प्रथम विकास अनुबन्ध के निष्पादन के पूर्व यदि इस नीति से निर्गम (एक्जिट) करना चाहता है, तो उसके स्वामित्व की प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी गयी 10 प्रतिशत भूमि में से 02 प्रतिशत भूमि प्रति वर्ष की दर से जप्त कर एक्जिट करने की अनुमति दी जायेगी।
17. राज्य सरकार एवं शासकीय अभिकरणों की भूमिका एवं दायित्व
- 17.1 राज्य सरकार एवं इसके अभिकरणों की भूमिका 'सुविधा प्रदायक' एवं 'रेगुलेटर' के रूप में उस सीमा तक होगी जिससे कि इस नीति के अधीन जनकल्याण से सम्बन्धित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस नीति के अधीन विकसित की जाने वाली टाउनशिपस भविष्य में राज्य सरकार के ऊपर दायित्व न बन जाएं, इस हेतु अवस्थापना का नियोजन एवं अभिकल्पन इस प्रकार सुनिश्चित कराया जाएगा कि शैक्षिक एवं चिकित्सा सुविधाओं व जनकल्याण के अन्य आर्थिक पहलुओं के दृष्टिगत इन्टीग्रेटेड टाउनशिपस समुचित रूप से स्वावलम्बी हों। राज्य सरकार एवं इसके अभिकरणों का यह सुनिश्चित करने का भी दायित्व होगा कि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग की हाऊसिंग एवं अनौपचारिक क्षेत्र के 'सर्विस प्रोवाइडर्स' के लिए आवश्यक प्राविधानों सहित नगरीय निर्धनों के लिए 'इन्क्लूसिव' हो।
- 17.2 राज्य सरकार एवं उसके अभिकरणों द्वारा विभिन्न 'रेगुलेटरी' नियन्त्रणों यथा-भूमि जुटाव सम्बन्धी अनापत्तियां, विकास एवं निर्माण सम्बन्धी अनुज्ञाप और पर्यावरणीय स्वीकृतियां त्वरित गति से निर्गत की जाएंगी।
- 17.3 भूमि के कय/असम्बली में राज्य सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- 17.4 ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का निर्माण विकासकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित करने का दायित्व विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद का होगा। जिस विकासकर्ता द्वारा ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों अथवा भवनों का विकास सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, ऐसे डिफाल्टर विकासकर्ताओं के विरुद्ध विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा कड़ी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- 17.5 प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के लिए चयनित स्थल के अन्तर्गत एवं उसके चारों ओर के क्षेत्र में किसी प्रकार के अव्यवस्थित एवं अनधिकृत निर्माण न होने पाए।

*huth*

17.6 किसी टाउनशिप के लिए ठोस कूड़े के निस्तारण, ड्रेनेज निस्तारण तथा सीवेज निस्तारण की 'ऑन-साइट' व्यवस्था व्यवहारिक न होने की स्थिति में प्राधिकरण/आवास परिषद द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकाय/अभिकरण से समन्वय कर 'ऑफ-साइट' व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

17.7 डी.पी.आर. के अन्तर्गत दिए गए 'टाइम-शेडयूल' के अनुसार परियोजना क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु प्राधिकरण/परिषद द्वारा उचित व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति के अधीन टाउनशिप के लिए निर्धारित मानकों एवं अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है।

17.8 निजी विकासकर्ताओं के शेरर होल्डिंग अथवा सम्पत्ति आवंटन से सम्बन्धित विवादों/मुकदमों में राज्य सरकार अथवा इसके अभिकरण पक्षकार नहीं होंगे। ऐसेवादों का निस्तारण 'सिविल कोर्ट ऑफ लॉ' में ही सुनिश्चित किया जाना होगा।

#### 18. कठिनाई निवारण व्यवस्था

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु स्थानीय स्तर पर उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी, जयकि नीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शन एवं अन्य कठिनाईयों के निवारण हेतु सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

#### 19. नीति की प्रयोज्यता

19.1 यह नीति निजी पूंजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित विकास हेतु इन्टीग्रेटेड टाउनशिप/योजनाओं के विकास के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में (औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को छोड़कर) लागू होगी।

19.2 जिन विकासकर्ताओं द्वारा पूर्व इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकरण कराया गया था, परन्तु लाइसेंस नहीं मिला है अथवा जिनके पंजीकरण 'लैप्स' हो चुके हैं अथवा नवीनीकृत नहीं हुए हैं अथवा लाइसेंस जारी हुआ था परन्तु 'लैप्स' हो चुका है, ऐसे पंजीकरण/लाइसेंस स्वतः निरस्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी विकासकर्ताओं को इस नीति के अधीन नए सिरे से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

19.3 जिन विकासकर्ताओं के लाइसेंस वैधता अवधि में हैं, परन्तु डी.पी.आर./ले-आउट प्लान अनुमोदन नहीं कराया है, ऐसे विकासकर्ताओं को अपना लाइसेंस नई नीति के प्राविधानों के अनुसार अद्यतन/वैलीडेट कराना होगा तथा ऐसे प्रकरणों में डी.पी.आर./ले-आउट प्लान के अनुमोदन में नई नीति के प्राविधान लागू होंगे।

19.4 पूर्व इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अधीन अनुमोदित डी.पी.आर./ले-आउट प्लान का क्रियान्वयन पूर्व नीति के प्राविधानों के अनुरूप ही किया जाएगा। यदि किसी विकासकर्ता द्वारा नई नीति के प्राविधानों के अनुरूप अपनी योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित किया जाता है, तो नई नीति के प्राविधानों के अधीन निर्धारित लाइसेंस शुल्क तथा नगरीय विकास प्रभार की दरों के आधार पर गणना कर पूर्व में जमा की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि जमा करानी होगी।

*well*



सं 743/आ-अ-14

संख्या-1793

24/6/2014

30/6/14

संख्या-1198/8-3-14-37 विविध/13

प्रेषक,

सदा कान्त,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2014

विषय:- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए पुनरीक्षित इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-520/8-3-14-37 विविध/13 दिनांक 04.03.14 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) के क्रियान्वयन हेतु नीति में उल्लिखित प्रारूप यथा-लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र, लाइसेंस जारी करने हेतु प्रपत्र, लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र अस्वीकार पाये जाने की स्थिति में विकासकर्ता को सूचित करने हेतु प्रपत्र तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की सूचना संबंधी प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाईसेन्स आधारित प्रणाली) लागू किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सदा कान्त  
प्रमुख सचिव

Amr Vikas

Format Website PC

प्रकाशित RY-GO.2

30-6-2014

30.6.14

आवास एवं विकास  
AP.S.  
27/6

25.6.14

स. वा. नि.


1256

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
- ✓ 10. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(पी०र० यादव)  
अनु सचिव



**DRAFT****FORMAT-2, APPLICATION FOR GRANT OF LICENSE**

No. ...., Dated.....

To,

**The Housing Commissioner,**  
U.P. Housing & Development Board,  
Lucknow/

**The Vice- Chairman,**  
.....Development Authority.

**Sub: Application for Grant of License for development of an Integrated Township on.....acres of land at.....(Name of Village/ locality), Tehsil..... and District....., Uttar Pradesh.**

I/we, the undersigned duly authorized to represent and act on behalf of M/S..... (The Applicant) hereby apply for grant of license for the above mentioned project in accordance with the provisions of Integrated Township Policy issued vide Government Order No.520/8-3-14-37 Vividh/13, dated 4<sup>th</sup> March, 2014 (as amended from time to time).

2. I/we are hereby submitting our Application including the following details:-
  - (a) Details of the applicant on the prescribed format ( Annexure-1);
  - (b) Financial Capability of the applicant on the prescribed format (Annexure-2);
  - (c) Copy of Consortium Agreement (in case of a Consortium Applicant);
  - (d) Copy of Affidavit certifying that aggregate of financial liability of the applicant in all Consortiums does not exceed his original financial capability (in case the applicant company is a member of more than one Consortium);
  - (e) Demand Draft No. ...., Dated.....for Rs.....(in figures and words) issued by.....(Name of Bank) in favour of the Housing Commissioner/ Vice Chairman.....Development Authority as non-refundable processing fee;
  - (f) Other details and supporting documents in accordance with the requirements of the policy (please specify).
3. We are also submitting following information/documents in triplicate with regard to the proposed integrated township:-
  - (a) A Key Plan showing the location of the proposed township in the Master Plan of the concerned notified area (if any);
  - (b) A Site Plan of the land on a scale of 1:1000 showing the boundaries and dimensions of the proposed license area, means of access to it from the existing main roads, existing Abadies, buildings/premises and any other important physical features within a distance of at least 30 meters of the said land.




---

- (c) A copy of the Shajra plan showing the boundaries of the proposed license area along with name of the revenue village, Khasra number of each field and area of each field.
  - (d) Copy or copies of all the title-deeds and/or other documents showing minimum 25 percent ownership of the Applicant in the land under the proposed township along with a list of such deeds and/or other documents.
  - (e) A concept plan of the proposed township on a scale of 1:2000 highlighting its salient features and showing the existing and proposed means of access to the township, layout and width of internal roads, broad distribution of land uses, type of residential development (e.g. plotted/Group Housing), sites for EWS and LIG housing, parks and open spaces, community facilities and public utilities, etc.
  - (f) An explanatory note with regard to projected demand and the sources of water supply, power and sites for disposal and treatment of storm and sullage water.
4. The Housing Commissioner/Vice Chairman.....Development Authority is hereby authorized to mortgage 10 percent land of the total area of the proposed township, owned by the applicant, till execution of the first Development Agreement, in case the applicant is eligible for grant of license.
  5. The Housing Commissioner/Vice Chairman.....Development Authority and their authorized representatives are also hereby authorized to conduct any inquiries or investigations to verify the statements, documents, and information submitted in connection with this application, and to seek clarification from our bankers and clients regarding any financial and technical aspects. This application will also serve as authorization to any individual or authorized representative of any entity referred to in the supporting information, to provide such information deemed necessary and requested by yourself to verify statements and information provided in this application, or with regard to the resources, experience, and competence of the Applicant.
  6. I/we understand that;
    - (a) All information submitted under this application shall remain binding upon us during its processing for grant of license ; and
    - (b) The Housing Commissioner/Vice Chairman.....Development Authority may in their absolute discretion reject or accept any application, cancel the licensing process, and reject all applications.
  7. I/we declare that all statements made by us and all the information pursuant to this application are complete, true and accurate to the best our knowledge and beliefs.

**Enclosures:**.....(Please give details)

For and on behalf of (Name of Applicant or  
Lead Member of a Consortium Applicant)

Signed.....

Name.....

Date.....




---



### Details of the Applicant

(Separate Response Sheets for each Consortium Member in case of Consortium)

#### Organizational Profile

Sl. No.	Description	Details (to be filled by the Applicant/Each Member)
1.	Name of the Applicant	
2.	Official address	
3.	Phone No. and Fax No.	
4.	E-Mail address	
5.	Corporate Headquarters Address	
6.	Phone No. and Fax No.	
7.	E-Mail address	
8.	Web Site Address	
9.	Details of Company's Registration (In case of Lead Member), please enclose attested copies of the documents	
10.	Name of Registration Authority	
11.	Registration Number and Year of Registration	
12.	Service Tax Registration No.	
13.	CST/LST/VAT Registration No.	
14.	Permanent Account Number (PAN)	
15.	Provident Fund Registration Number	

**Note:**

The Applicant may be a single entity (Individual Applicant) or a group of entities (Consortium Applicant).

  
\_\_\_\_\_

## Financial Capability of the Applicant

(Equivalent Rs. in Crores)

Applicant Type	Net-worth		Turnover		
	As on the last date of Year 1	Reference Page No. of C.A. Certificate	Year 1	Year 2	Year 3
Individual Applicant/ Lead Member Name & address.....					
Consortium Member-1 Name & address.....					
Consortium Member-2 Name & address.....					
Consortium Member-3 Name & address.....					
And so on.....for all Consortium Members					

**Note:**

1. Turnover of the Applicant may be of any sector or business.
2. Certified Financial Statements (Audited Balance Sheets) for the last 3 years to be submitted along with duly certified turnover and net worth by a Chartered Accountant.
3. Net worth of previous year should be minimum 20 percent of the average annual turnover of last three years.
4. Net worth of the Lead Member should be minimum 20 percent of the Consortium's net worth.
5. Average annual turnover of the Lead Member should be minimum 26 percent of the Consortium's turn over.
6. Minimum shareholding of Lead Member in a Consortium should be 26 percent and balance may be supplemented by any member including the Lead Member.
7. Year-1 will be the last financial year ending 31<sup>st</sup> March, 2014. Year-2 shall be the year immediately preceding Year-1 and Year-3 shall be the year immediately preceding Year-2. In case, audited statements for the last financial year are unavailable, provisional statements, duly certified by a Chartered Accountant are required to be submitted.





**DRAFT**  
**FORMAT-3, GRANT OF LICENSE**

**Registered**

No. .... Dated.....

To

M/s.....

.....

.....

**Sub: Grant of License for development of an Integrated Township on.....acres of land at.....(Name of Village/ locality), Tehsil..... and District....., Uttar Pradesh.**

With reference to your application No. ....dated....., this license is granted under the Integrated Township Policy issued vide Government Order No.520/8-3-14-37 Vividh/13, dated 4<sup>th</sup> March, 2014 (as amended from time to time) for development of an integrated township on.....acres of land at..... (Name of Village/locality, Tehsil.....and District....., Uttar Pradesh.

2. The particulars of the land and its location on Shajra plan wherein the aforesaid township is to be set up are given in the schedule annexed hereto and duly signed by the Competent Authority.
3. This license is granted subject to the condition that the proposed township shall conform to the terms and conditions of Development Agreement to be executed between the Applicant and the Authority.
4. The license shall be valid till completion of the project unless cancelled earlier.
5. The license may be cancelled if at any time/stage, it comes to the notice of the Authority that:-
  - (a) A false/material misrepresentation has been made by the Applicant.
  - (b) The Applicant has been debarred by any Central or State Government Agency from carrying out real estate activity in the country/State.
  - (c) The Applicant has been convicted by any Court of Law for any of the offences under any governing laws relating to criminal omission or conviction in property construction/development operation activities regarding which a case has been registered against him/her by a public authority.
  - (d) The Applicant has defaulted in complying with the milestones laid down in the policy.

**Enclosure:** As above.



**The Housing Commissioner,**  
U.P. Housing & Development Board/

**The Vice-Chairman,**  
.....Development Authority

**DRAFT**  
**FORMAT-4, REFUSAL OF LICENSE**

**Registered**

No. .... Dated.....

To,

M/S.....  
.....  
.....

**Sub: Refusal of License for development of an Integrated Township on.....acres of land at.....(Name of Village/locality, Tehsil.....and District....., Uttar Pradesh.**

Reference your application No. ...., dated..... for grant of license under the Integrated Township Policy issued vide Government Order No.520/8-3-14-37 Vividh/13, dated 4<sup>th</sup> March, 2014 (as amended from time to time) for development of an Integrated Township on.....acres of land at.....(Name of Village/locality, Tehsil.....and District....., Uttar Pradesh.

2. It is regretted that the grant of license is refused for the reasons given below:-

- (a).....  
.....  
.....
- (b).....  
.....  
.....



**The Housing Commissioner,**  
U.P. Housing & Development Board/

**The Vice-Chairman,**  
.....Development Authority



**DRAFT**

**FORMAT-5, NOTICE FOR CANCELLATION OF LICENSE**

**Registered**

No. .... Dated.....

To,

M/S.....

.....

.....

**Sub: Notice for Cancellation of License for development of an Integrated Township on.....acres of land at.....(Name of Village/locality, Tehsil.....and District....., Uttar Pradesh.**

Reference this office letter No....., dated..... vide which you have been granted license under the Integrated Township Policy issued vide Government Order No.520/8-3-14-37 Vividh/13, dated 4<sup>th</sup> March, 2014 (as amended from time to time) for development of an Integrated Township on.....acres of land at.....(Name of Village/locality, Tehsil.....and District....., Uttar Pradesh.

2. Whereas it has come to my notice that:-

(a) You have made a false/material misrepresentation of facts in your application No.....,dated.....for grant of license with regard to the following:-

.....

.....

(b) You have defaulted in complying with the following milestone laid down under para-15 of the Integrated Township Policy with regard to implementation of the project:-

.....

.....

(c) You have violated following clause of the Development Agreement signed on .....(date) between you and the Authority:-

.....

.....

3. You are hereby required to show cause within a period of 30 days from the date of this notice as to why your license should not be cancelled.

4. If you fail to comply with the above requirements within the stipulated period, your license shall be cancelled.

  
\_\_\_\_\_

**The Housing Commissioner,**  
U.P. Housing & Development Board/

**The Vice-Chairman,**  
.....Development Authority